

संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा - मुख्य परीक्षा
(Download) UPSC Mains 2004 General Studies Question
Paper
सामान्य अध्ययन-I

Exam Name: UPSC IAS Mains General Studies (Paper-1)

Year: 2004

प्रश्न पत्र - I - 2004

समय: तीन घंटे

पूर्णांक: 300

1. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए:

(लगभग 250 शब्दों में) 30

(क) अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित प्रमुख विनियमों पर चर्चा कीजिए।

(ख) असहयोग आन्दोलन का समालोचनात्मक आकलन कीजिए।

2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए:

(प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में) $2 \times 15 = 30$

(क) 1905 में बंगाल का विभाजन किस कारण हुआ?

(ख) थियोसोपिफकल सोसाइटी पर एक टिप्पणी लिखिए।

(ग) हाटौंग समिति (1929) के मुख्य निष्कर्षों पर चर्चा कीजिए।

3. निम्नलिखित के संबंध में लिखिए।

(प्रत्येक मामले में 20 शब्दों के अन्दर) $15 \times 2 = 30$

(i) उपनिषद्

(ii) वज्रायण

(iii) कुमारसंभव

(iv) रजमनामा

(v) मिर्जा हैदर

(vi) मुहम्मद बर्कतुल्ला

(vii) सोहन सिंह भाकना

(viii) जाडौंग

(ix) जादुनाथ सरकार

(x) नाज़िर हसन

- (xi) आचार्य निर्मलय
(xii) सुभाष गुप्ते
(xiii) आचार्य निर्मलय
(xiv) ज्योतिराव पुफले

4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो का उत्तर दीजिए।

(प्रत्येक लगभग 125 शब्दों में) $2 \times 10 = 20$

- (क) भारत में तेलशोधक कारखानों के वितरण का परीक्षण कीजिए।
(ख) अरावली को मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का विभाजन क्यों कहा जाता है ?
(ग) स्वर्ण चतुर्भुज क्या है ? देश के आर्थिक विकास में इससे किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

(प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में) $5 \times 2 = 10$

- (क) ऐल नीनो, ला नीना और मानसून वर्षा
(ख) सांभर झील
(ग) सुंदरबन
(घ) बौम्बे हाई
(ङ) सबरकंथा और बनासकंथा

6. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

(लगभग 250 शब्दों में) 30

(क) संविधान की उद्देशिका का क्या महत्त्व होता है ? भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित भारतीय राज्य-व्यवस्था के दर्शन को सुस्पष्ट कीजिए।

(ख) 'सांविधानिक मशीनरी का ठप्प हो जाना' के अर्थ पर चर्चा कीजिए। इसके क्या प्रभाव होते हैं ?

7. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए।

(लगभग 250 शब्दों में) 30

(क) चर्चा कीजिए कि भारत का संविधान किस प्रकार समान अधिकार प्रदान करता है।

(ख) भारत का संविधान लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखने का किस प्रकार प्रयास करता है ?

8. निम्नलिखित में से किसी दो का उत्तर दीजिए:

(प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में) $2 \times 15 = 30$

(क) धन विधेयक की परिभाषा दीजिए। चर्चा कीजिए कि यह संसद में किस प्रकार पारित किया जाता है ?

(ख) वित्त आयोग क्या होता है ? राज्य वित्त आयोग के मुख्य प्रकार्यों पर चर्चा कीजिए।

(ग) चर्चा कीजिए कि राज्य सरकारें पंचायतों पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती हैं।

9. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए।

(प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में) 10

(क) बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है ?

(ख) राज्य सरकारों की उधार लेने की शक्ति पर कौन से सांविधानिक निबंधन आरोपित किए गए हैं ?

(ग) अनुच्छेद 350 के अधीन भाषाई अल्पसंख्याओं को कौन सी विशेष सुविधा प्रदान की गई है ?

(घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है ?

(घ) भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार गठित किया जाता है ?

10. निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखिए।

(लगभग 250 शब्द):30

(क) पंजाब विधान सभा के, नदी जल मामलों पर सभी पिछले समझौतों का समापन करने संबंधी विधेयक के पश्चात्, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पिफर से ज्वलंत हो गया है। चर्चा कीजिए।

(ख) पुरा (पू.यू.आर.ए.) क्या है ? उसके प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए।

11. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लिखिए।

प्रत्येक लगभग 125 शब्दों में) : 2×10=20

(क) भारत में मानव विकास पर यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट को स्पष्ट कीजिए।

(ख) डब्ल्यू. टी. ओ. (विश्व व्यापार संगठन) क्या है? उसके समग्र प्रकार्यण पर भारत की क्या आपत्तियाँ हैं ?

(ग) भारत के संदर्भ में, ई-शासन की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए।

12. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए (प्रत्येक लगभग 125 शब्दों में) 2×10=20

(क) राष्ट्रीय आवासन नीति ने 2010 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य किस सीमा तक निष्पाद्य है ?

(ख) “क्या शिक्षा पर और अधिक व्ययन उच्चतर साक्षरता के साथ जुड़ा है ?” चर्चा कीजिए।

(ग) उद्यम संसाधन आयोजना क्या होती है ?

13. निम्नलिखित के संबंध में लिखिए।

(प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में) 5×2=10

(क) इसरो (आई.एस.आर.ओ.)

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग

(ग) एन.डी.डी.बी.

(घ) हिरेन मुखर्जी

(च) परीचू झील